

## LEARN FOR LIFE NOT FOR MARKS

Principal

In today's fast-paced world, education has often become synonymous with the pursuit of high marks and academic excellence. Education is largely looked at by all stakeholders, teachers, students, parents as a means to get marks, grades or degrees and seldom as a process of learning for life or acquiring the aptitude for life long learning. While academic excellence is undoubtedly important, it's crucial to remember that the true purpose of education is to equip individuals with the knowledge, skills and values needed to thrive in life.

Consider a student who memorizes formulas for an exam but struggles to apply them in real world problems. This is a classic example of learning for marks, not for life. In contrast, a student who explores the underlying concepts, practices problem-solving and develop a deep understanding of the subject maths is learning for life.

Children have been cramming up the lessons in political science year after year but this country would be indebted to their teachers if they are able



to experientially educate and inspire the children and engrain in them the understanding and appreciation of democracy, the practical essence of equality and the true vision of fundamental rights and duties.

It's time for schools to look at why's! And How's! of teaching and learning, moving ahead of merely what's! It's time to look at what can be done to bring a shift from marks to learning. Teachers most importantly need to link up the subject with the real world, it's people, it's concerns and most importantly the sustainable solutions.

Getting a few marks more or less is not going to make so much of a difference. How much you learn and how many things you grasped right now will make a world of difference.

It is clearly not sufficient to offer more of the same education in conventional rote learning style. Success is no longer mainly about what we know, because for that we have Google. So, the present day's life skill is more about what we can do with what we know & how do we create better solutions to the challenges in front of the world today.

## असली स्वतंत्रता क्या है ?

Tabbasum - IX

स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन को आत्मनिर्भरता, गरिमा और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने का अधिकार प्राप्त हो। असली स्वतंत्रता का मतलब है मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर स्वतंत्रता, जो व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देती है।

स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक या कानूनी आजादी नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर निर्णय लेने और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता है। यह वह स्थिति है जहां कोई भी बाहरी शक्ति या बाधा व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती।

असली स्वतंत्रता की पहली शर्त मानसिक स्वतंत्रता है। यदि हम अपने मन से डर, अज्ञानता, पूर्वाग्रह और नकारात्मक सोच से मुक्त नहीं हैं, तो बाहरी स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं। मानसिक स्वतंत्रता हमें आत्मविश्वास और साहस देती है कि हम अपनी राह खुद चुनें और अपने निर्णयों के परिणामों का सामना करें।

सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव से मुक्त होना। जब तक समाज में समानता और भाईचारा नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता का आदर्श अधूरा रहेगा। आर्थिक स्वतंत्रता भी असली स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी, बेरोजगारी और शोषण से जूझ रहा है, तो उसकी स्वतंत्रता केवल कागज़ पर लिखे



अधिकार बनकर रह जाती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता व्यक्ति को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करती है।

असली स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती; यह भीतर से आती है। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण। जब व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों और सीमाओं को पहचानकर उनसे ऊपर उठता है, तो वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है।

स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है; यह समाज के विकास का आधार भी है। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, तो वह अपने विचारों, कला, विज्ञान और साहित्य में नए आयाम जोड़ सकता है। स्वतंत्रता समाज में सृजनात्मकता, नवाचार और सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करती है।

स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। असली स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम अपने कार्यों के परिणामों की चिंता किए बिना कुछ भी करें। यह हमें सिखाती है कि अपने अधिकारों का उपयोग दूसरों के अधिकारों और भावनाओं का सम्मान करते हुए करें।

असली स्वतंत्रता बाहरी और आंतरिक स्वतंत्रता का समन्वय है। यह केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और सद्भाव स्थापित करने का माध्यम है। स्वतंत्रता की सार्थकता तब है, जब हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें समाज और व्यक्ति दोनों को अपने-अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। असली स्वतंत्रता वही है जो आत्मा को संतोष और मन को शांति प्रदान करे।

### EMBRACING THE JOURNEY

## Exploring the Essence of Life

Aryan Jha, X-B

Life is more than a race toward destinations; its essence lies in experiences, relationships, and wisdom. Embracing this journey with mindfulness reveals its profound beauty. Both joy and adversity are essential for growth—triumphs bring fulfillment, while challenges teach resilience, humility, and broaden perspectives. Detours and obstacles are opportunities to refine character and illuminate our path. Human connection forms the heart of life, teaching empathy and compassion. Relationships, along with a harmonious bond with nature, art, and introspection, enrich existence. Striking a balance between ambition and contentment, solitude and



community, and work and rest fosters wholeness. Ambition drives progress, while contentment reminds us to cherish the present. Gratitude transforms ordinary experiences into extraordinary ones, nurturing fulfillment and a sense of abundance. Ultimately, life's essence transcends material success. It lies in exploring the unknown, learning from setbacks, and staying grounded in triumphs. By living with love, wisdom, and purpose, we leave a legacy that endures.

## Time is Precious

### A Reminder to Value Every Moment

Anamika Class - 9B

Time is our most valuable and finite resource, ticking away equally for everyone. Yet, in today's fast-paced world, we often overlook its significance, caught in the pursuit of success and daily demands. To truly value time, we must prioritize meaningful connections, personal growth, and activities that

bring joy. It's about quality over quantity, focusing on what matters most and setting boundaries to avoid meaningless busyness. Embracing time's impermanence helps us cherish



the present moment and savor life's richness. Let's seize each day with intention, for it's not the amount of time we have but how we choose to spend it that defines its worth..

## Reading Marathon



## Hindi Diwas



## Story Telling Competition



## Library Visit





# Nanotechnology

## Exploring the Future at the Molecular Scale

Harshit Sharma, XII-A



Nanotechnology, once a theoretical concept, has become a practical reality with wide-ranging implications across various fields. It involves manipulating matter at the atomic and molecular scale, typically within 1 to 100 nanometers. The field originated in the 1950s with physicist Richard Feynman's ideas, but significant advancements in microscopy and nanofabrication in the 1980s and 1990s established it as a distinct science.

### Applications:

**Medicine:** Nanoparticles enhance drug delivery, nanosensors improve diagnostics, and nanomaterials aid in tissue regeneration.


**Electronics:** Nanotechnology drives the

miniaturization of devices, the development of nanoscale transistors, and flexible electronics.

**Energy & Environment:** It boosts solar cell efficiency, improves energy storage, and enables better water purification.

**Challenges:** Nanotechnology faces safety, ethical, and regulatory challenges, necessitating careful evaluation and responsible development.

**Future Directions:** The field is poised to revolutionize sectors with advancements in nanomedicine, quantum computing, and environmental remediation. Overall, nanotechnology is reshaping industries and improving quality of life globally, but it requires responsible stewardship to ensure its benefits are realized safely and ethically.



# Nature and Environment



Vihaan Soni - IV

All living things that live on this earth comes under the environment. Whether they live on land or water they are part of environment. The environment also includes air, water, sunlight, plants, animals, etc.

Moreover, the earth is considered the only planet in the universe that supports life. The environment can be understood as a blanket that keeps life on the planet safe and sound.

We truly cannot understand the real worth of the environment. But we can estimate some of its importance that can help us

understand its importance. It plays a vital role in keeping living things healthy in the environment.

Likewise, it maintains the ecological balance that will keep check of life on earth. It provides food, shelter, air, and fulfills all the human needs whether big or small.

Moreover, the entire life support of human depends wholly on the environmental factors. In addition, it also helps in maintaining various life cycles on earth.

Most importantly, our environment is the source of natural beauty and is necessary for maintaining physical and mental health./

# Geopolitics of the Arctic: A Region in Flux

Anjesh Kumar Sinha- XII C

The Arctic has become a key geopolitical hotspot, with rising temperatures opening new opportunities and risks. As ice melts at an unprecedented rate, nations like Russia, the U.S., and Canada are intensifying efforts to assert control over the region's vast natural resources—particularly oil, gas, and minerals. The competition is particularly fierce in the wake of a recent \*2023\* report from the U.S. Geological Survey, estimating that the Arctic holds up to 13% of the world's undiscovered oil reserves.

One of the most significant developments has been Russia's growing militarization of the Arctic. In September 2023, Russia launched its largest-ever Arctic military exercise, dubbed



"Ocean Shield 2023" involving thousands of troops and advanced weaponry. This military buildup is seen as a direct response to NATO's increased presence in the region, including the U.S. and Canada's joint military drills in the Arctic Circle. The region is now a flashpoint for strategic rivalry, with both sides vying for control of Arctic shipping lanes and resource-rich areas.

Meanwhile, the Northern Sea Route (NSR), which connects Europe to Asia, is seeing a surge

in use. With Arctic ice shrinking, the route has become more navigable, prompting nations like China and Russia to invest heavily in its infrastructure. The potential for shorter trade routes has brought heightened tensions between Russia and Western countries, particularly over concerns of controlling these key global shipping lanes.

Despite these rivalries, the Arctic Council, in 2024, emphasized the need for greater international cooperation on climate action, urging Arctic nations to take stronger steps in reducing greenhouse gas emissions to preserve the region's fragile ecosystem. However, balancing economic interests with environmental protections will remain a challenging task for the foreseeable future.



# No Alligators

Devang Bhadauria - VIII

A tourist's boat capsized while he was almost reaching the shore. He could swim, but his fear of alligator's kept him clinging to the overturned boat. Spotting an old beachcomber standing on the shore, the tourist shouted, "Are there any alligators around here?" "No" the man shouted back, "They have not been around for years!" Feeling safe, the tourist started swimming leisurely



toward the shore. About halfway there, the tourist asked the beachcomber, "How'd you get rid of the alligators?" "We didn't do anything" the beachcomber said, "the sharks got them"

# Nature



I love nature  
It's our pleasure  
To have such a mother  
It's so sweet  
Such as a candy treat –  
To have such a mother.  
We should say sorry  
To mother nature  
Because we are doing  
deforestation,  
When we should do  
plantation.  
We are doing pollution  
So we should find the  
solution.

Vaidika Dixit  
Class 4

# World Environment Day



# Inter School Science Exhibition



# Funny Science Fact

Did you know that bananas are technically berries, but strawberries aren't?



Botanically speaking, a berry is a fruit that develops from a single flower with one ovary and has seeds embedded inside the flesh. Bananas fit this description, while strawberries develop from multiple ovaries, making them impostors in the berry world! Nature loves to keep us on our toes!

Adarsh, Class V




## Quantum Computing

Tanmaya Gupta, XI-B

Quantum computing is a cutting-edge field at the intersection of physics, computer science, and information theory. Unlike classical computers, which process information in bits that can be either 0 or 1, quantum computers use quantum bits or qubits. Qubits exploit quantum mechanical phenomena such as superposition and entanglement, allowing them to represent and process multiple states simultaneously.

This unique capability enables quantum computers to solve certain problems much faster than classical computers. For example, they could potentially revolutionize cryptography, optimize complex systems like supply chains and financial portfolios, simulate quantum physics phenomena, and accelerate drug discovery through complex molecular



modeling.

Currently, researchers and companies are making strides in developing scalable quantum hardware and refining quantum algorithms. Challenges such as maintaining qubit coherence (how long a qubit can hold information), error correction, and building practical quantum processors are actively being tackled.

While quantum computing is still in its early stages and faces significant technical hurdles, its potential to transform industries and scientific research makes it one of the most exciting areas of modern physics.

## Wake Up, Rise, and Do Not Stop Until You Achieve Your Goal

Animesh Gangwar - XI A

Life is a canvas of endless possibilities, and the first step toward turning dreams into reality is to wake up. Waking up is not just about opening your eyes but about becoming aware of your purpose and potential. It is about breaking free from complacency and taking the initiative to work toward your aspirations. Each morning brings a new chance to progress, and those who seize it with determination carve their path to success.

Rising requires courage, dedication, and unwavering focus. Challenges and setbacks are part of the journey, but they should not deter you. Instead, they serve as lessons and stepping stones. True success comes to those who embrace hard work and persevere in the face of adversity. Rising is about believing in yourself, even when the odds are stacked against you.



It is about standing tall and moving forward with resilience.

The mantra "do not stop until you achieve your goal" demands unshakable determination. The road to success is rarely smooth; it is filled with obstacles, distractions, and moments of self-doubt. Yet, persistence is the force that keeps you moving forward. Every small step you take brings you closer to your goal, and every setback teaches



you to be stronger. Staying consistent and focused is the key to unlocking your true potential.

This journey is not just about reaching the destination but about the growth, strength, and wisdom gained along the way. By waking up, rising with courage, and refusing to stop, you become the architect of your destiny, leaving behind a legacy of determination and triumph.

## Modern Music vs. Classical Music

Rohit - XII A

Music, in all its forms, has the power to move and inspire, but the debate between modern music and classical music often sparks diverse opinions. Both genres offer unique experiences, rooted in different historical contexts and cultural significance.

Classical music, which spans several centuries, from the Baroque period to the Romantic era, is known for its structure, complexity, and emotional depth. Composers like Beethoven, Mozart, and Chopin created symphonies, concertos, and operas that are rich in orchestral arrangements and intricate harmonies. Classical music often features grand compositions that require intense technical skill from musicians, and its themes explore deep philosophical and emotional realms. Whether through the majesty of a symphony or the tenderness of a piano



sonata, classical music has remained a revered art form for its sophistication and timeless beauty.

In contrast, modern music, which emerged in the 20th century, covers a vast array of genres, including pop, rock, hip-hop, electronic, and more. It is often characterized by its accessibility and experimental approach. With advances in technology, artists now have the ability to incorporate various electronic elements and production techniques that were previously unimaginable. Modern music, especially pop



and rock, is driven by catchy melodies, relatable lyrics, and often a sense of immediacy. It connects deeply with listeners

through emotional storytelling or energetic beats, making it a significant part of today's popular culture.

While classical music offers a reflective, structured listening experience, modern music often reflects the fast-paced, ever-changing nature of contemporary society. Both styles offer immense value—classical music appeals to those seeking depth and complexity, while modern music connects with those craving instant emotional release or a sense of modern identity. Ultimately, the preference between the two comes down to individual taste, yet both genres contribute richly to the world of music.

## Importance of Internet in student's life

Sanvi Soni, VII

The Internet, the most useful technology of modern times, helps us not only in our daily lives but also in our professional lives. For educational purposes, it is widely used to gather information and to do research or add to the knowledge of various subjects.

The Internet plays a very vital role in education. There is no doubt that in this modern era, everyone prefers Google for their queries, problems, or doubts. Popular search engines like Google, yahoo, etc.

Are the topmost choices of people as they offer an easy and instant reach to a vast amount of information in just a few seconds? It contains a wealth of knowledge that can be searched at any time. The

internet has introduced improvements in technology, communication, and online entertainment.

Today, it has become more important as well as a powerful tool in the world which is preferred by everyone. Everyone needs the internet for some or other purposes.

Students need the internet to search information related to exams, curriculum, results, etc. You can also follow these steps for students to achieve success in student life.

The importance of the internet in education to the students means that it makes it easier for them to research things, and relearn the content taught in the school. People use it according to their needs and interests.

## Importance of Discipline

Sharmistha - X-B

Discipline is a cornerstone of success and personal growth. It instills a sense of responsibility, enabling individuals to manage their time and tasks efficiently. A disciplined approach helps achieve goals by fostering focus and perseverance. In academics, discipline ensures consistent learning and better results, while in professional life, it builds credibility and reliability.

Discipline also promotes self-control, helping individuals make wise decisions and avoid impulsive actions. It nurtures a balanced life, as adhering to routines enhances productivity and well-being. Moreover, societal harmony relies on discipline.

## RBI Awareness Program



## Parent's Workshop



## Unleashing Creativity



## Performing Arts





## No Men Are Foreign

*The Divisions Created by Power and the Ideology of Global Citizenship*

English Department PIS

Throughout history, humanity has been divided by rulers, empires, and ideologies in the pursuit of power, wealth, and control. These divisions—be it through borders, religions, cultures, or social classes—have often been imposed by those at the top, making "foreign" out of what is essentially human. But as we reflect on the lessons of the past, it becomes clear that the concept of "foreignness" has always been a construct of power, rather than a reflection of our true shared humanity.

### The Rise of Empires and Divisions in History

Throughout history, empires like the Romans and European colonizers created divisions to justify control, labeling others as "barbarians" or imposing artificial borders. These actions ignored cultural ties, dividing people who shared the same world.

### Wars and Conflicts Driven by Division

The 20th century's world wars and the Cold War revealed the harm of divisions driven by power, nationalism, and ideology. This "us versus them" mindset persists, fostering conflict and benefiting those in power.

### Vasudev Kutumbukum: A Vision of Unity

India's philosophy of Vasudev Kutumbukum "the world is one family" - promotes unity beyond nationality, race, or religion, rooted in teachings like the Bhagavad Gita, emphasizing intercon-



tedness and global peace.

### Global Citizenship Today

Global citizenship emphasizes unity as one planet, promoting cooperation on climate change, human rights, and health. Responses to crises like COVID-19 and climate action movements show the importance of collective efforts for shared challenges.

### Conclusion: A Unified World

History reveals the harm caused by imposed divisions, but India's wisdom of Vasudev Kutumbukum highlights our shared humanity. Embracing this vision can unite people beyond nationality, race, or religion, fostering a global family.

Let us embrace the ideology of global citizenship, where every human being is equal, and the notion of "foreign" disappears in the face of our common humanity.

## संस्कारों का महत्व

Kratika Singh - XII-C

संस्कार भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा हैं, जो व्यक्ति के जीवन को सुगठित, सुसंस्कृत और मूल्यवान बनाते हैं। संस्कार केवल पारंपरिक रीति-रिवाज या सामाजिक अनुशासन तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का आधार होते हैं।

**आध्यात्मिक उन्नति:** संस्कार व्यक्ति को आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करते हैं। संस्कारिता से नेतृत्व: एक संस्कारी व्यक्ति समाज में आदर्श प्रस्तुत करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है।

**संस्कारों का जीवन पर प्रभाव:** व्यक्तित्व निर्माण: संस्कार व्यक्ति के विचार, भाषा और व्यवहार को निखारते हैं। ये उसके व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं।

**नैतिक निर्णय लेने की क्षमता:** संस्कारी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम होता है।

**सकारात्मक दृष्टिकोण:** संस्कार व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सके।

सामाजिक संबंधों में सुधार: संस्कार व्यक्ति को दूसरों के प्रति सहानुभूति, सम्मान और सद्भावना की भावना विकसित करने में मदद करते हैं।

**जीवन को सार्थक बनाना:** संस्कार व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।

आधुनिक युग में, जहां तकनीकी प्रगति ने जीवन को भौतिक रूप से समृद्ध बनाया है, वहीं संस्कारों का महत्व और बढ़ गया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नैतिक मूल्यों का हास हो रहा है। ऐसे में संस्कार हमें मानवता की मूलभूत शिक्षा प्रदान करते हैं और जीवन को संतुलित एवं सार्थक बनाते हैं।

संस्कार किसी भी समाज और व्यक्ति की प्रगति का आधार हैं। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है, जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है।



## Importance of "Geetasaar" in Student Life

PGT Chemistry

The Bhagavad Gita, often referred to as the Geetasaar, holds immense significance for students, offering wisdom that goes beyond academics and helps in shaping a well-rounded life. The teachings of the Gita provide guidance for mental strength, self-discipline, and resilience—qualities essential for student life.

One of the core messages of the Gita is the importance of performing one's duties selflessly, without attachment to the results. In Chapter 2, Verse 47, Lord Krishna says:

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥"

This verse teaches that we should focus on performing our



duties without attachment to the results. For students, it emphasizes the importance of concentrating on the learning process, reducing stress, and staying motivated without worrying about grades or outcomes.

Another important lesson from the Gita is the cultivation of a balanced mind. In Chapter 6, Verse 5, Lord Krishna states:

"उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥"

This verse highlights self-effort and mental discipline, teaching that the mind can be both a friend and an enemy. The Gita's lessons on selfless action, discipline, and focus equip students to overcome distractions and face academic and personal challenges with resilience and wisdom.

Through its teachings on selfless action, discipline, and mental balance, the Bhagavad Gita provides essential tools for students to navigate the challenges of academic life and personal growth with wisdom and resilience.

## Sports in India: A Dynamic Journey

Khalidraza, XII-A

Sports in India represent a blend of tradition, passion, and growing global prominence. The nation has evolved from celebrating indigenous games to excelling in international sports arenas.

**Traditional Roots and National Obsession:** India's sports culture started with traditional games like Kabaddi, Kho-Kho, and Mallakhamb, which are still popular. Cricket, however, dominates the scene, with events like the IPL and milestones like World Cup wins and records by players like Virat Kohli.

**Achievements Beyond Cricket:** India has excelled in various sports, with Neeraj Chopra's Olympic gold in javelin and the hockey team's 2024 Asian Champions Trophy win highlighting its talent. Stars like PV Sindhu and HS Prannoy have earned global acclaim, while football, wrestling, and athletics are gaining popularity.

**Paralympic Triumphs and Inclusivity:** Indian athletes have excelled in the Paralympics, with historic wins in events like high jump,



archery, and shot put at Paris 2024. This reflects the nation's commitment to inclusivity and sports development.

**Government Support and Infrastructure:** Programs like Khelo India and initiatives to establish sports academies have bolstered grassroots participation. Major global events, including the inaugural Kho-Kho World Cup 2025, highlight India's growing role as a sporting hub.

**Challenges and Future Outlook:** While cricket overshadows other sports, increasing investment and public interest signal a promising future. With a focus on diversity and infrastructure, India is poised to emerge as a global sports powerhouse. Sports in India not only unify the nation but also inspire dreams and global recognition.

### Dussehra



### Ramayana Act



### Janamashtmi



### Vidhan Sabha Visit



### Grand Parents Day



### Inter House Basketball Competition



## त्योहारों का रंग क्यों फीका होता जा रहा है?

Aashi - X, A

त्योहार भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो समाज में खुशियां और सद्भाव लाते हैं। लेकिन आज आधुनिक जीवनशैली, व्यस्तता, और व्यावसायीकरण ने इनकी चमक कम कर दी है। परिवारों में मिलकर त्योहार मनाने

की परंपरा घट रही है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने व्यक्तिगत संबंध कमजोर कर दिए हैं। पर्यावरणीय चिंताएं और स्वास्थ्य कारणों ने भी उत्साह कम किया है। त्योहारों का महत्व बनाए रखने के लिए हमें सादगी, परंपराओं और मूल्यों को अपनाना होगा, ताकि ये सामाजिक संदेश और आनंद का प्रतीक बने रहें।